







COFFY

JFL/NSE-BSE/2025-26/27

July 26, 2025

BSE Limited P.J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai – 400051

Scrip Code: 533155 Symbol: JUBLFOOD

Sub: <u>Submission of copies of Newspaper advertisements & Reminder letter sent to the shareholders for transfer of shares to Investor Education & Protection Fund ("IEPF")</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith following documents:

- 1. Copies of newspaper advertisements published today i.e. July 26, 2025 in Mint (English) & Rashtriya Sahara (Hindi) with respect to notice to the Shareholders for transfer of equity shares of the Company to IEPF Authority.
- 2. Reminder letters sent to shareholders for transfer of equity shares of the Company to IEPF.

The copies of above documents are also available on the website of the Company at <a href="https://www.jubilantfoodworks.com">www.jubilantfoodworks.com</a> under <a href="https://www.jubilantfoodworks.com">Investor Relations</a> section.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer Investor E-mail id: investor@jublfood.com Encl: A/a



## EASTERN RAILWAY

Tender Notice No. SG.Tender DSTE/SDAH/560 dated 24.07.2025, St DSTE, Eastern Railway, Sealdah, 2nd Floor, Control Building, DRM Building Kaizer Street, Sealdah, Kolkata-700014 invites e-tender for the following work e-Tender No.: SDSTE/SIG/T/23/25 26/RRSK. Name of work with its location: Signalling work in connection with : Sealdah Division - Diamond Crossing - 27 Sets . Tender Value: Rs 42,31,194.65, Earnest Money to be deposited: Rs. 84.600/-. Cost of Tende document: Nil. Completion period of the work: 6 months. Tender submission start date: 08.08.2025. Tender submission end date: 22.08.2025 upto 14.00 hrs. Tender bid opening date 22.08.2025 upto 14.30 hrs. Details may be available: www.ireps.gov.ir Documents required to be submitted As per tender document.

SDAH-135/2025-26 Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.i Follow us at : 📉 @EasternRailway ( @easternrailwayheadquarter

JUBILANT FOODWORKS LIMITED

CIN: L74899UP1995PLC043677 Regd. Office: Plot No. 1A, Sector -16A, Noida - 201 301, Uttar Pradesh Corporate Office: 15<sup>th</sup> Floor, Tower-E, Skymark One, Plot No. H-10/A, Sector - 98, Noida - 201301, Uttar Pradesh Tel: +91-120-6927500; +91-120-6935400

Website: www.jubilantfoodworks.com, E-mail: investor@jublfood.com

### **NOTICE TO THE SHAREHOLDERS** Transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

In terms of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("Act"), any money transferred to the Unpaid Dividend Account of the Company, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) years from the date of such transfer shall be transferred to the IEPF, a fund established by Central Government under Section 125 of the Act. Further, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Act read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as amended from time to time, all shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven (7) consecutive years or more shall also be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF Authority.

Individual communication has been sent to the registered address of all the shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years i.e. from FY 2017-18 till date and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority under the IEPF Rules. The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at https://www.jubilantfoodworks.com/unclaimed- $\underline{\text{dividend-and-shares-liable-to-be-transferred-to-iepf.}}$ 

Shareholders are requested to forward the requisite documents as per above mentioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Pvt. Ltd. (formerly Link Intime India Pvt. Ltd.) to claim the unclaimed dividend for FY 2017-18 and onwards. In case the dividend(s) are not claimed by October 26, 2025, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the unclaimed dividend along with the underlying shares to IEPF Authority, in the manner provided under IEPF Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF

Please note that both the unclaimed dividend and the underlying shares ncluding all benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF can be claimed back only from IEPF Authority by following the procedure prescribed in this regard on the website i.e. www.iepf.gov.in.

For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company at investor@jublfood.com or Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Pvt Ltd (formerly Link Intime India Pvt Ltd.) at Noble Heights, 1st Floor, NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058, Telephone: +91-1149411000, E-mail: delhi@in.mpms.mufg.com., Website www.in.mpms.mufg.com

For Jubilant FoodWorks Limited

(Mona Aggarwal)

**Company Secretary** 

Date: 25.07.2025 Place: Noida

### नयन्ता, राजस्थान राज्य कवि विपणन बोर्ड. खण्ड जोधपर-।

<u>अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या ०७/२०२५-२६ NIB No. : AGM2526A0111</u> \_\_\_\_\_ जिला बाड़मेर, सिरोही, डीग, दौसा, जयपुर, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमन्द, डुगरपुर, प्रतापगढ़ माजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न छात्रावासो के निर्माण कार्यो की निम्न बी.एन. द्वारा ऑनलाईन निविदा ई—प्रोक्योरमेन्ट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से बोर एवं अन्य राजकीय विभागो में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से आमंत्रित की जाती है। निविदा र म्बन्धित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb ww.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता हैं । (UBN:AGM2526WSOB00436 to 445) ज.संवाद/सी/२५/६८९०



## यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी- $oldsymbol{2}$ , सैक्टर ओमेगा- $oldsymbol{1}$ ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्व नगर Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांकः वाई.ई.ए. / OSD(M)/2025/280

दिनांकः 22.07.2025

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासिक/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों / फर्मों से ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। ई-प्रीक्योरमेंन्ट सोल्यूशन द्वारा निविदायें द्धिस्तरीय पद्धति से खोली जायेगी।

कार्यालय आदेश संख्याः वाई.ई.ए. / OSD (M)/2025/279 दिनांक 22.07.2025 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी (बी.ओ.क्यू.) पर डाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके पश्चात 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी / परफॉर्मेन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मेन्स गारन्टी एफ.डी.आर. / सी.डी.आर. / बैंक गारन्टी / एन.एस.सी. के रुप में न्यनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत		
1.	Operation & maintenance of street light for one year on 100 mtr wide road (road no06) between Sector-20 & 21 (Year - 2025-26) YEIDA (WC-E&M-02)	रु. 05.95 लाख		
2.	Operation & maintenance of 02 Nos. tubewell at Sector-24A (Year 2025-2026) YEIDA (WC-E&M-03)	रु. 11.23 लाख		
3.	Shifting & Dismanting of 11 KV over line in Pocket 1A, 1B, I & 5A Sector-18, YEA (WC-E&M-03)	रु. 12.37 लाख		
4.	Operation and maintenance of 02 Nos tubewell at Sector-18 Pocket-J, and 5A (Year 2025-2026) YEIDA (WC-E&M-03)	रु. 12.17 लाख		
5.	Maintenance of LED street light for one year in 03 villages clubbed as package-01 (Year 2024-2025) YEA (WC-E&M-02)	रु. 20.35 लाख		
6.	Construction of 9 Nos outgoing double pole structure at 33/11 KV Sub station at R&R (Jewer Banger Phase-01) YEIDA (WC-E&M-03)	रु. 26.96 लाख		
7.	Providing street light at village - Ajay Nagar, YEA (WC-E&M-02)	रु. 24.05 लाख		
8.	Providing street light at village - Thusrana, YEA (WC-E&M-02)	रु. 28.54 लाख		

जिन्हे **दिनांक 28.07.2025 से 08.08.2025 को 5:00 बजे** तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई—निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन **दिनांक 11.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे** खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
9.	Providing street light at village - Maksudpur, YEA (WC-E&M-02)	रु. 28.93 लाख
10.	Providing street light at village - Aakalpur, YEA (WC-E&M-02)	रु. 36.80 लाख
11.	Replacement of existing sodium street lights by LED light on 100 mtr wide road between Sector-18 & 20, with one year operation & maintenance, <b>YEA (WC-E&amp;M-02)</b>	रु. 39.57 लाख
12.	Supply, installation testing and commissioning of street light from Bhaipur road to Tirthali road cut and Bhaipur Jhajhar road. <b>YEA (WC-E&amp;M-02)</b>	रु. 102.22 लाख
13.	Providing street light at village - Faleda Bangar, YEA (WC-E&M-02)	रु. 131.53 लाख

जिन्हे **दिनांक 29.07.2025 से 08.08.2025 को 5:00 बजे** तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई—निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन दिनांक 11.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
14.	Construction of 11/0.415 KV sub-station in Sector-18 Pocket 1A & 7A, YEIDA (WC-E&M-03)	रु. 600.03 लाख

जिन्हे दिनांक 29.07.2025 से 11.08.2025 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई–निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन दिनांक 13.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रुप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष कार्याधिकारी (एम.)

महत्वपूर्ण सूचनाः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए पाधिकरण की वेबसाइट www.vamunaexpresswavauthority.com देखें।





# INDOGULF CROPSCIENCES LIMITED

CIN: U74899DL1993PLC051854

Regd. Office: 501, Gopal Heights, Netaji Subhash Place Delhi - 110034 (INDIA) Website: www.groupindogulf.com; Email: info@groupindogulf.com

## EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2025

(\ III millions, unless outerwise stated)									
Sr.	Particulars		Standalone			Consolidated			
No.		Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		31 <sup>st</sup> March, 2025	31 <sup>st</sup> March, 2024	31 <sup>st</sup> March, 2025	31st March, 2024	31st March, 2025	31 <sup>st</sup> March, 2024	31 <sup>st</sup> March, 2025	31 <sup>st</sup> March, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income	1,250.24	1,408.45	5,966.76	5,558.17	1,281.70	1,408.38	5,944.75	5,557.87
2	Net profit before tax	149.56	179.18	453.41	361.34	151.86	178.85	445.70	360.41
3	Net profit after tax	96.95	131.23	320.85	284.73	97.96	129.42	314.72	282.33
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.50	131.28	322.40	286.43	98.51	129.47	316.27	284.03
5	Paid-up equity share capital (Face Value ₹ 10/- each)	487.87	235.19	487.87	235.19	487.87	235.19	487.87	235.19
6	Other equity excluding revaluation reserves	97.50	131.30	2,275.06	2,084.12	98.49	129.48	2,264.90	2,080.07
7	Earnings Per Share(of ₹ 10/- each) in ₹ (not annualised)								
	Basic	1.99	5.58	7.16	12.11	2.01	5.50	7.02	12.01
	Diluted	1.99	5.55	7.16	12.04	2.01	5.47	7.02	11.94

## Notes:

- 1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on company's website (www.groupindogulf.com)
- 2 The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 24th July, 2025.
- 3 The audit as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the auditors of the Company

For and on Behalf of Board of Directors of Indogulf Cropsciences Limited


यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(₹ in Millions, unless otherwise stated)

Place: DELHI Date: 25th July, 2025

Sanjay Aggarwal Managing Director





Prevent Mosquito Breeding by taking following measures



Scrub, dry and change water of Cooler weekly.



Don't keep cups, tyres, containers, etc around



for birds must be changed weekly.







Keep the lid of water tank closed. Don't let your home in the open. water tank overflow.



Don't let water collect around home. Put petrol in accumulated water.



Don't let water collect near construction sites.

Non-compliance of the said advice will lead to the legal action as per the provisions under relevant sections of the New Delhi Municipal Council (Malaria and other Mosquito borne diseases) bye-laws 2007





PUBLIC HEALTH DEPARTMENT NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL TO BE THE GLOBAL BENCHMARK FOR A CAPITAL CITY

**\1533** 

## यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर, 201308 (उ.प्र.

Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com पत्रांक:- वाई.ई.आई.डी.ए./संस्थागत/3563/2025 दिनांक: 24.07.2025

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत भूखण्डों Hospital & Child Welfare and Maternity Centre के आवंटन की योजना कोड YEA/INST 2025-26/01 दिनांक 18.06.2025 को प्रारम्भ की गुयी थी, जिसमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि 24.07.2025 थी, प्रश्नगत निविदाओं में प्रतिभाग करने की तिथियों में

निम्नानुसार विस्तार किया जाता है:-Date of Closing 31.07.2025 (05:00 PM) Date & Timing for Display of : 28.08.2025 (05:00 PM)

Name of Qualified/Disqualified Bidder

Date & Time of E-Auction

: 02.09.2025 (11:00 AM to 2:00 PM)

विशेष कार्याधिकारी यमूना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफ़रोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

# **Bharti Hexacom Limited**

(CIN: L74899HR1995PLC132187)

Regd. Office: Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram - 122015, India Corporate Office: Bharti Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi - 110070, India

Tel.: +91 124 4222222, Fax: +91 124 4248063 Email: bhartihexacom@bharti.in; Website: www.bhartihexacom.in

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING OF

## BHARTI HEXACOM LIMITED AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- The 30th Annual General Meeting ('AGM') of Bharti Hexacom Limited ('the Company') will be held on Wednesday, August 20, 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated May 13, 2025 ('Notice'). The Company has engaged KFin Technologies Limited ('KFin') to provide facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its members (together referred to as 'e-voting').
- In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('Act') SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), applicable guidelines, circulars etc. issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'Circulars'), the Notice alongwith Annual Report for FY 2024-25 covering Annual Financial Statements for the financial year ('Annual Report') have been sent in electronic mode only, to all those members/ beneficial owners whose names are appearing in the register of members/ beneficial owners received from depositories as on **Friday**, **July 18**, **2025**. The electronic dispatch of the Notice and Annual Report to the members through email has been completed on

Friday, July 25, 2025. The Notice and the Annual Report is also available on the website of the Company (https://www.bhartihexacom.in/results-annualresults.html), the website of KFin (https://evoting.kfintech.com/public/ Downloads.aspx) and on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com). The aforesaid documents can also be accessed by scanning the given QR Code.



The Company has also sent a physical communication to the members whose email addresses are not registered/ updated in the records, which contains the exact link and a QR code of the Company's website to access the Notice, Annual Report and other relevant documents. Further, members are requested to register/update their email addresses with their relevant depository participants.

- The Company is pleased to provide the remote e-voting and e-voting facility at the AGM to its members in respect of the business(es) to be transacted at the AGM. The resolutions set forth in the Notice will be transacted only through e-voting. Detailed instructions for e-voting and the procedure to join the AGM, are provided in the Notice.
- The remote e-voting period will commence at 9.00 A.M. (IST) on Saturday, August 16, 2025 and will remain open till 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 19, 2025. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date & time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFin upon expiry of aforesaid period. Once the vote on the resolutions is casted by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The cut-off date for the purpose of reckoning the voting rights for this AGM is Wednesday, August 13,
- 2025 ('Cut-off date'). Accordingly, only those members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Cut-off date (including those members who may not have received this Notice due to non-registration of their email ID with the DPs) shall be entitled to vote by way of remote e-voting/ e-voting at AGM. The person who is not a Member/ Beneficial Owner as on the Cut-off date, should treat this Notice for information purpose
- A non-individual member who acquires the equity shares after the Notice is dispatched and holds equity shares as on the Cut-off date, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request at einward.ris@kfintech.com. However, if a member is already registered with KFin for e-voting, it may use the existing login credentials to cast the vote. In case of individual shareholders holding securities in demat mode, he/ she may follow steps mentioned in Note no. 18 of the Notice.
- The members attending the AGM through VC who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to vote through e-voting at the AGM. However, the members can opt for only one mode of voting i.e. either remote e-voting or e-voting at the AGM. The members who have cast their vote by remote evoting may also attend the AGM but will not be able to vote again at the AGM.
- The Record Date for determining the entitlement of members to final dividend for the financial year 2024-2025 is **Friday, July 25, 2025**. The dividend, subject to the approval of the members at the AGM, will be paid within 30 days from the date of approval of members.
- As per the Income-tax Act, 1961, as amended by the Finance Act 2020, dividend paid or distributed by the Company as on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of the members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of the said dividend. The members are requested to refer to separate email communication sent by the Company in this regard.
- 10. The voting results will be announced within two working days from the conclusion of the AGM or any other timeline described under applicable law(s). The voting results alongwith Scrutinizer's report shall be available on the website of the Company at https://www.bhartihexacom.in/results-annual-results.html, on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx and shall also be displayed at the registered office and corporate office of the Company. The voting results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges viz. NSE and BSE. In case of any query, clarification(s) and/or grievance(s), in respect of e-voting, please refer the "Help" &

Frequently Asked Questions (FAQs) sections available at the bottom of the webpage on KFin's website i.e. https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx or contact Mr. S.R. Ramesh, Deputy Vice President, KFin Technologies Limited at evoting@kfintech.com or call on toll free no. 1800 309 4001

For Bharti Hexacom Limited

Place: New Delhi Date: July 25, 2025

for any further clarification.

**Amit Chaturvedi** Company Secretary & Compliance Officer

नई दिल्ली। शनिवार ● 26 जुलाई ● 2025

आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 4,078 दिन की अखंड राष्ट्रसेवा कर्तव्य की कालजयी साधना बन चुकी है। आपका हर क्षण, हर निर्णय मां भारती के वैभव को समर्पित योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उप्र

स्महारा= | www.rashtriyasahara.com

# 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका : मेयर

नई **दिल्ली (एसएनबी)।** यूथएक्सकनेक्ट ने दिल्ली नगर निगम के सहयोग से शुक्रवार को निगम मुख्यालय में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया तथा 'एक राष्ट्र, एक

चुनाव' विषय पर अपने कार्यक्रम में विभिन्न विचार व्यक्ति किए। विद्यालयों व दिल्ली इस मौके पर मेयर राजा इक्रबाल सिंह, डिप्टी विश्वविद्यालय के छात्रों मेयर जय भगवान ने भाग लिया यादव, स्टैंडिंग कमेटी

चेयरमैन सत्या शर्मा, सदन नेता प्रवेश वाही, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, पवन राणा, विष्णु मित्तल, शिश यादव तथा निगमायुक्त अश्विनी कुमार उपस्थित थे।

इस अवसर पर मेयर राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आज की इस राष्ट्रीय युवा संसद में छात्रों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा किए। यह विषय देश के भविष्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसका आशय है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले इससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार

उन्होंने कहा कि सभी चुनाव एक साथ होने से चुनाव

क्रमांक एफ.1 डीटीए/आई.टी (13 IFMS)/2025-26/ 207

procurement is Rs. 1.90 Crores.

निदेशालय कोष एवं लेखा

Notice Inviting Bid IT(Servers)/2025-26

(C.M.C.) are invited from interested bidders up to 03:00 PM dated 05-

08-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://SPPP.rajasthan.gov.in and

Departmental website dta.rajasthan.gov.in. The approximate value of the

 ${
m UBN:}\ {
m DTA}2526 {
m SLRC}00088$   $_{
m R.O.No::DIPR/C/10269/2025}$  संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677

**पंजीकृत कार्यालयः** प्लॉट १ए, सैक्टर १६ए, नोएडा—201301, उत्तर प्रदेश **कॉरपोरेट कार्यालयः** 15वां तल, टॉवर इ. स्कोईमार्क वन, प्लॉट नं. एच—10 / ए सैक्टर 98. नोएडा—201301, उत्तर प्रदेश

फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400

वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

इक्विटी शेयर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि

("आईईपीएफ") प्राधिकरण को अंतरित करने के संबंध में

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (5) के निबन्धनों में, कम्पनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी राशि, जो ऐसे अंतरण की तिथि से सात (7) वर्षों की अवधि हेतु अदत्त या अदावित रहती है, अधिनियम की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक फुंड जिसे आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा, जो

इसके अलावा, समय–समय निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षण, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ('आईईपीएफ नियमावली') वे साथ पठित अधिनियम की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी को ऐसे शेयर भी, आईईपीएफ अथॉरिटी के डीमैट खाते में अंतरित करने होंगे, जिनके संबंध में

व्यक्तिगत संचार उन सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है जिनवे

लाभांश लगातार सात वर्षों से यानी वित्त वर्ष 2017—18 से आज तक अदावित हैं औ

जिनके शेयर आईईपीएफ नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए

जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वैबसाइट

<u>https://www.iubilantfoodworks.com/unclaimed-dividend-and-shares-liable-to-betransferred-to-lepf</u> पर ज्ञला गया ह।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2017—18 और उसके बाद के अदावी लाभाश क

रावा करने के लिए कंपनी के रिजिस्ट्रार और शेयर ट्रासफर एजेंट यानी एमयूएफर्ण इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को

उपयुक्त संचार के अनुसार आवश्यके दस्तावेज अग्रेषित करें। यदि **26 अक्टूबर, 202**5 तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी द्वारा अदावी लाभांश को अंतर्निहिर

शेयरों के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण को, आईईपीएफ नियमावली के तहत दी गई विधि

में, आगे और कोई सूचना दिए बिना, अंतरित कर दिए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि

आईईपीएफ में स्थानातरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा मान्य

कृपया ध्यान् दें कि दावा न किए गए लाभांश और ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभों

बाद <u>www.iepf.gov.in</u> की वैबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल

श्रेयरघारक, उपरोक्त के संबंध में किसी पूछताछ के लिए कम्पनी से <u>investor@iublfood.com</u> पर अथवा / रजिस्ट्रार एवं श्रेयर ट्रांसफर एजेन्ट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व

में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) नोबल हाइट्स, प्रथम तल, एनएच–2, सी–1 ब्लॉक

रृल्एससी, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058 फोन : +91 11 49411000

ई–मेल : <u>delhi@in.mpms.mufg.com.</u> वैबसाइट : <u>www.in.mpms.mufg.com</u>. पर सम्पर्क

परिशिष्ट IV-A

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट

प्तामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उद्यारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता

है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत

अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जान

जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] जिसका रचनात्मक कब्जा (''सुरक्षित लेनदार

द्वारा") लिया जा चुका है, 28.08.2025 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे तक सुरक्षित लेनदार के

देय निम्नलिखित बकाया राशि की वसूली के लिए '<mark>'जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है''</mark>, के

ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित राशियां सुरक्षित लेनदार के संबंधित ऋण खातों में 17.07.2025 तक

बकाया मुलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भविष्य के ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 18.07.2025 से

रभावी जो उधारकर्ताओं <mark>गुलशन कुमार ग्रोवर (प्रोपराइटर, मानसी प्लास्टिक्स) और अलका उर</mark>्फ

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 97,00,000/- (रुपए सत्तानवे लाख मात्र)** होगा और

अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 9,70,000/- (रुपए नौ लाख सत्तर हजार मात्र)** यानि आरक्षित

अचल संपत्ति का वर्णन

संपत्ति नंबर - 1

पूरी पहली मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 8 है. भिम का

क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, ब्लॉक और पॉकेट बी–8 में, सेक्टर–3, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट

प्लान में स्थित है, रोहिणी, दिल्ली – 110085, प्रवेश और निकास, सार्वजनिक लिफ्ट और पेसेज,

संपत्ति नंबर - 2

पूरी पहली मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 9 है, भूमि क

क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, ब्लॉक और पॉकेट बी-8 में, सेक्टर-3, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट

लान में स्थित है, रोहिणी, दिल्ली – 110085, प्रवेश और निकास, सार्वजनिक लिफ्ट और पेसेज,

सार्वजनिक सीढ़ी और स्टिल्ट पार्किंग के अविभाजित 1/4 क्षेत्र के सार्वजनिक अधिकार के साथ।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें ; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +917065451024 ;

ई—मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

नोट : संपत्ति नंबर 1 और संपत्ति नंबर 2 इन दोनों को एक ही लॉट के रूप में बेचा जाएगा।

सार्वजनिक सीढ़ी और स्टिल्ट पार्किंग के अविभाजित 1/4 क्षेत्र के सार्वजनिक अधिकार के साथ।

17.07.2025 तक बकाया राशि (रुपए में)

रु. 33,27,681/- (रुपए तैंतीस लाख सत्ताईस हजार

छह सौ इक्यासी मात्र)

रु. 33.11.706/- (रुपए तैंतीस लाख ग्यारह हजा

सात सौ छह मात्र)

रु. 39,25,843/- (रुपए उनतालीस लाख पच्चीस हजार

आठ सौ तैंतालीस मात्र)

रु. 1,05,65,230/- (रुपए एक करोड़ पांच लाख

पैंसठ हजार दो सौ तीस मात्र)

क्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

वास्ते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

(मोना अग्रवाल) कम्पनी सचिव

आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी का दावा किया जा सकता है।

दिनाकः 25.07.2025

ऋण खाता नंबर

HHLDMT00346679

HHLDMT00346648

HHEDMT00466965

**अलका ग्रोवर** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है ।

मूल्य के 10% के बराबर होगा।

3.

स्थानः नोएडा

लाभांश सात (रे) लगातार वर्षों या अधिक हेतु अदत्त या अदावित रहता है।

शेयरधारकों को सूचना

ज़ुबिलैंट फूडवर्क्स लिभिटेड

Bids for 38 Computer Servers Comprehensive Maintance Contract



आयोग अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। इससे शासन में स्थिरता और नीतियों के क्रियान्वयन में गति आएगी। इससे चुनावों पर होने वाले व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे आर्थिक संसाधनों की बचत होगी और चुनाव प्रक्रिया में धन और बल की भूमिका भी सीमित की जा सकेगी। यदि सभी चनाव एक साथ कराए जाएं तो इस व्यय में भारी कमी लाई जा सकती है। इससे बची हुई राशि को नागरिक हितैषी योजनाओं में उपयोग किया जा सकता है। साथ

ही बार-बार आचार संहिता लागु होने से विकास कार्य प्रभावित

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि यह विषय काफ़ी बड़ा है। यदि यह हमारे देश के हित में है तो हमारा 'फस्ट प्रिंसिपल' यही होना चाहिए कि हम इसके समर्थन में खडे हों। आज छात्रों ने इस विषय पर अपने-अपने विचार साझा किए, जो यह दर्शाता है कि हमारी युवा पीढी भी 'एक राष्ट्र, एक चनाव' के विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है।

# कारगिल शहीदों के सम्मान में इस्कॉन द्वारका में शांति यज्ञ

नई दिल्ली (एसएनबी)। देश की रक्षा में तैनात सैनिकों और उनके बलिदान को हमेशा सर्वोच्च माना जाता है। ढाई दशक पूर्व कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों के बलिदान को आज भी गौरव के साथ याद किया जाता है। भारत माता के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार को संपूर्ण भारत में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में शुक्रवार को इस्कॉन द्वारका श्रीश्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित

कारगिल शहीदों की स्मृति में होने वाले इस यज्ञ में भक्तों ने राष्ट्रीयता के प्रतीक शहीद सैनिकों की

# कूड़े से आजादी दिलाने को दिल्ली सरकार की पहल

# राजधानी में 'आजादी-स्वच्छता अभियान' एक अगस्त से

नई दिल्ली (एसएनबी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली को कुड़े से आजादी दिलाने के लिए एक अगस्त से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान पुरे महीने यानी 31 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अभियान का हिस्सा बनने को कहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, स्कूल एवं कॉलेजों के छात्रों एवं संस्थानों को जोड़ा जाएगा। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धमेंद्र, शहरी विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम समेत अन्य अधिकारी शालिम हुए।

दिल्ली को कुड़े से आजादी-स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना देश में आजादी के लिए जाना जाता है, उनकी सरकार चाहती है कि अगस्त महीने में दिल्ली के लोगों को कुड़े से आजादी दिलाई जाए। सरकारी विभागों एवं आम लोगों के सहयोग से इस अभियान का सफलतापूर्वक चलाया जाएगा। दिल्ली के लोगों को अहसास कराया जाए, कि यह अभियान वास्तव में दिल्ली के लोगों को कुडे से आजादी दिलाने में सफल रहा है। अभियान के दौरान सरकार का स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष फोकस रहेगा। इनके स्टोर रूम में सालों से जमा कबाड (अनउयुक्त चीजें) को साफ करने की योजना है। सब्जी, फल मंडियों, औद्योगिक क्षेत्रों, बस अड्डों एवं बस डिपो में भी अभियान चलाया जाएगा। अभियान में सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, निगम पार्षद शामिल होंगे और आमजन की

मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए अगस्त माह के शनिवार एवं रविवार को कूड़े से आजादी- स्वच्छता अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष पोर्टल के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। अभियान के दौरान सफाई स्थल के फोटो (सफाई से पहले और बाद) भी इस



 आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, स्कूल एवं कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चत करेगी

 दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में 29 जुलाई की बैठक में तय होगी अभियान की रूपरेखा

 आमजन को जोड़ने के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी पोर्टल

पोर्टल अपलोड़ किए जाएंगे। इस अभियान के दौरान स्लम, अनिधकृत कालोनियों, झुग्गी-बस्ती भी विशेष रूप से शामिल होंगे। सफाई के बाद सामान्य दिनों से अधिक कुड़े का निस्तारण किया जाएगा। जिससे जगह-जगह कूड़े के ढेर न दिखें। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन पर फोकस करेगी, जो हर व्यक्ति को सफाई रखना कर्तव्य बोध कराता, तभी दिल्ली स्वच्छ बनेगी। स्वच्छता अभियान एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक को कर्तव्य बोध कराने का अभियान है। अभियान की विस्तृत रूपरेखा 29 जुलाई को निगम मुख्यालय में होने वाली बैठक में रखी जाएगी। इस बैठक में मंत्रियों, विधायकों एवं सांवदों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी। आशीष सूद ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से देश को स्वच्छता का संदेश देंगे। जनभागीदारी करते हुए जो लोग पोर्टल पर अपनी फोटो अपलोड करेंगे, उसकी पुष्टि के बाद पुरस्कृत करने पर भी विचार किया जाएगा।

गौरवगाथा का गुणगान किया गया। नरसिंह भगवान को समर्पित इस यज्ञ में अनेक भक्तों सहित शहीदों के परिवारजन भी सम्मिलित हुए। इसमें कैप्टन अखिलेश सक्सेना, शहीद कैप्टन अनुज नायर की माताजी, कैप्टन विजयंत थापर के पिताजी कर्नल थापर, कारगिल योद्धा कर्नल अश्विनी शर्मी, कैप्टन निशांत, तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य रैंक के जवान भी शामिल हुए, जिन्होंने 1971 से लेकर कारगिल तक के समय में सीमाओं पर देश की सेवा की है।

# **PICICI Bank** पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाड़ा रोड कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, गुंबई-400051

कापारट कायालय: आईसीआईसीआई बैंक टावरी, बान्द्रा-कुला कांग्नल्कर, मुंबई-400051 स्टार्फ हुं-जीलाजी सह आनंत्रण सूचना
निम्नवर्णित ऋणप्राप्तकर्ताओं को उनके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (आईसीआईसीआई बैंक') से प्राप्त की गई स्वर्ण आमूषणों के विरूद्ध सुविधा ('सुविधा') के संबंध में उन पर बकाया राशियों के मुनातान हेतु सूचनाएं जारी की गई हैं। चूंकि वे बकाया राशियों का मुनातान करने में असफल रहे हैं, हम बंधक रखे गए स्वर्ण आमूषणों की ई-नीलामी, 06-08-2025 को, संचालित करने हेतु बाध्य हैं। आईसीआई बैंक को निम्नलिखित किसी भी खाते को नीलामी से, पूर्व सूचना दिए बिना, हटाने /ई-नीलामी की तिथि परिवर्तित करने का अधिकार है। नीलामी दोपहर 12.30 बजे से अप. 3.30 बजे तक https://jewel-auction.procuretiger.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वर्णित वेबसाइट लॉग इन करें। यदि कर्जदार की मृत्यु हो चुकी है, तो ई-नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके कानूनी वारिक्षों पर लागू होंगी।

शाखा का नाम : दिल्ली — आजाद मार्केट 738857000014 मोहम्मद नसीम शाखा का नाम : दिल्ली — मारत नगर 746362000418 राहुल कुमार सिंह शाखा का नाम : दिल्ली — कैलाश नगर 429462001056 अमित शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — कैलाश नगर 42946201056 अमित शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — कालकाजी 663157015042 महावीर साहू 663162601572 ज्योति बजाज शाखा का नाम : दिल्ली — लक्ष्मी नगर 083162004212 ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपुर 344605001046 चन्द्र कान्ता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपुरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	
शाखा का नाम : दिल्ली — मारत नगर  746362000418 राहुल कुमार सिंह  शाखा का नाम : दिल्ली — कैलाश नगर  429462001056 अमित शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — कालकाजी 663157015042 महावीर साहु 663162601572 ज्योति बजाज शाखा का नाम : दिल्ली — क्सी नगर 083162004212 ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — क्सी नगर 344605001046 चन्द्र कानता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – आजाद मार्केट
746362000418 राहुल कुमार सिंह शाखा का नाम : दिल्ली – कैलाश नगर 429462001056 अमित शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली – कालकाजी 663157015042 महावीर साहू 663162601572 ज्योति बजाज शाखा का नाम : दिल्ली – लक्ष्मी नगर 083162004212 ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली – शकरपूर 344605001046 बन्द्र काल्ता शाखा का नाम : दिल्ली – जनकपूरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली – द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	738857000014 मोहम्मद नसीम
शाखा का नाम : दिल्ली – कैलाश नगर  429462001056 अमित शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली – कालकाजी 663157015042 महावीर साहू 663162601572 ज्योति बजाज शाखा का नाम : दिल्ली – लक्ष्मी नगर 083162004212 मनता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली – शकरपुर 344605001046 बन्द्र कान्ता शाखा का नाम : दिल्ली – जनकपुरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली – द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – भारत नगर
429462001056   अमित शर्मा     शाखा का नाम : दिल्ली — कालकाजी     663157015042   महावीर साहू     663162601572   ज्योति बजाज     शाखा का नाम : दिल्ली — लक्ष्मी नगर     083162004212   ममता शर्मा     शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपूर     344605001046   चन्द्र कानता     शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1     037857000035   प्रदीप शर्मा     शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका     025057000066   चंदन कुमार	746362000418 राहुल कुमार सिंह
शाखा का नाम : दिल्ली — कालकाजी 663157015042 महावीर साहू 663162601572 ज्योति बजाज शाखा का नाम : दिल्ली — कहमी नगर 083162004212 ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपूर 344605001046 चन्द्र कान्ता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपुरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – कैलाश नगर
663157015042   महावीर साहू   663162601572   ज्योति बजाज   शाखा का नाम : दिल्ली — लक्ष्मी नगर   083162004212   ममता शर्मा   शाखा का नाम : दिल्ली — शाकरपूर   344605001046   चन्द्र कान्ता   शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1   037857000035   प्रदीप शर्मा   शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका   025057000066   चंदन कुमार	<b>429462001056</b> अमित शर्मा
663162601572   ज्योति बजाज   शाखा का नाम : दिल्ली — लक्ष्मी नगर   083162004212   ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपुर   344605001046   चन्द्र कान्ता   शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपुरी सी 1   037857000035   प्रदीप शर्मा   शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका   025057000066   चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – कालकाजी
शाखा का नाम : दिल्ली — लक्ष्मी नगर  083162004212 ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपूर  344605001046 चन्द्र कान्ता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1  037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका  025057000066 चंदन कुमार	663157015042 महावीर साहू
083162004212   ममता शर्मा शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपूर अ44665001046   चन्द्र कानता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1 037857000035   प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066   चंदन कुमार	663162601572 ज्योति बजाज
शाखा का नाम : दिल्ली — शकरपूर 344605001046 वन्द्र कान्ता शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपूरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – लक्ष्मी नगर
344605001046   चन्द्र कान्ता   शाखा का नाम : दिल्ली   जनकपुरी सी 1   037857000035   प्रदीप शर्मा   शाखा का नाम : नई दिल्ली   द्वारका   025057000066   चंदन कुमार	083162004212 ममता शर्मा
शाखा का नाम : दिल्ली — जनकपुरी सी 1 037857000035 प्रदीप शर्मा शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – शकरपुर
037857000035   प्रदीप शर्मा   शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका   025057000066   चंदन कुमार	<b>344605001046</b> चन्द्र कान्ता
शाखा का नाम : नई दिल्ली — द्वारका 025057000066 चंदन कुमार	शाखा का नाम : दिल्ली – जनकपुरी सी 1
025057000066 चंदन कुमार	037857000035 प्रदीप शर्मा
	शाखा का नाम : नई दिल्ली – द्वारका
भारत का तार अर्थ किसी अंदेशकार	025057000066 चंदन कुमार
	शाखा का नाम : नई दिल्ली – झंडेवालान
135462004107 हिमांशु यादव	135462004107 हिमांशु यादव

शाखा का नाम : नई दिल्ली लाजपत नगः शाखा का नाम : नई दिल्ली नजफगढ़ **071362002865** केशव केशव ाखा का नाम : नई दिल्ली रोहिणी सेक्टर–24 082862002342 दयालु राम शाखा का नाम : नई दिल्ली सदर बाजार 629505043821 अनुज जैन तिथि : 26-07-2025

स्थान : सेंटल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली साउथ-ईस्ट दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली

341 6, 41 8 1141111 4 44144 4111 414	
ऋण खाता सं. ग्राहक का नाम	ऋण खाता सं. ग्राहक का नाम
शाखा का नाम : नई दिल्ली शेख सराय	शाखा का नाम : नई दिल्ली – उत्तम नगर
<b>489957000006</b> बलजीत कौर	<b>112562003653</b> दीपक शर्मा
शाखा का नाम : नई दिल्ली भेरा एन्क्लेव	<b>112562003727</b> दीपक शर्मा <b>112562003767</b> दीपक शर्मा
082662002302 योजना दहिया	112562003767 द्विपक शर्मा 112562003768 दीपक शर्मा
शाखा का नाम : नई दिल्ली कम्युनिटी सेंटर	112562003769 दीपक शर्मा
004605021370 हिना कौसर	<b>112562003784</b> दीपक शर्मा
004662021501 सफीउर रहमान	शाखा का नाम : नई दिल्ली – यमुना विहार
शाखा का नाम : नई दिल्ली फतेहपुरी	<b>113505003129</b> शिवांगी
<b>113862001468</b> मेहरबान	113562002915 राकेश मेहता
	शाखा का नाम : पहाड़गंज
शाखा का नाम : नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश–।।	072257000024 मेघा
<b>031162005074</b> धनश्री धनवंतरी	शाखा का नाम : फरीदाबाद सेक्टर—16
शाखा का नाम : नई दिल्ली लाजपत नगर	008357001074 दीपक कुमार मिश्रा
022557000055 नीरज कूमार	शाखा का नाम : लुधियाना फोकल प्वाइंट
शाखा का नाम : नई दिल्ली नजफगढ़	218062000777 सईद आतिफ हुसैन
071362002865 केशव केशव	शाखा का नाम : मुजफ्फरपूर
शाखा का नाम : नई दिल्ली रोहिणी सेक्टर-24	
082862002342 दयालु राम	030662012553 सुमित सिंह
शाखा का नाम : नई दिल्ली सदर बाजार	शाखा का नाम : पटना कंकरबाग
	030762009092 सुमित सिंह
<b>629505043821</b> अनुज जैन	030762009335 सुमित सिंह

हस्ता /-वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड्

Aadhar

# विस को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को लेकर एलजी से मिले विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर चल रही योजना पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उप-राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही विधानसभा का निरीक्षण कर उच्चस्तरीय बैठक बुलाएंगे। अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा हमारे लोकतांत्रिक सफर का गौरवपुर्ण प्रतीक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात के दौरान उप-राज्यपाल को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय महत्व की धरोहर तथा एक जीवंत

R. V. HIGHER EDUCATION &

TECHNICAL INSTITUTE

(Village-Chithera,

Dadri, G.B.Nagar)-203207

Required

HOD/Prof./Assoc./Asst. Prof. for

B.P.Ed./BBA/BCA/B.Com/M.Co

m./B.P.E.S. & B.Ed. Dept.

Maths/Science/S.St./Lang./Com

merce)/Comp. Sc./Home Sc.

Health & Phy.Edu., Fine Art,

Performing Art-

(Music/Dance/Theatre)

Librarian.

Qualification as per

AICTE/NCTE/Univ. Norms.

Send your CV through

E-mail: rvheti.edu851@gmai I.com

Mob. 9810981348.

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/सामान्य), पूर्वोत्तर

रेलवे, वाराणसी निम्नलिखित कार्यों हेत्

ऑनलाइन (ई-टेण्डरिंग) के माध्यम से ''एकल'

क्रम सं.-01, निविदा सूचना संख्याः ई-निविदा-

एल-19-25-26, कार्य का नामः वाराणर्स

मंडलः— बनारस. वाराणसी सिटी एवं गाजीपः

सिटी एबीएसएस स्टेशनों पर शेष एलईडी

साइनेजों की व्यवस्था। अनुमानित लागत

₹ 23,27,478.05, अमानत राशिः ₹ 46,600/-

कार्य समापन का समयः 04 माह, निविद

समापन की तिथि एवं समयः 18-08-2025

14:30 बजे, निविदा खोलने की तिथि एव

उपरोक्त ई-निविदा कार्यों के पूर्ण विवरण

रवं निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु भारतीय रेल

समयः 18-08-2025, 14:30 बजे ।

निविदायें आमंत्रित करते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे

सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता पूर्व और विधायी विकास में इसकी केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। विधानसभा परिसर में एक समर्पित स्थल की स्थापना के बारे में भी उप-राज्यपाल को जानकारी दी। विधानसभा परिसर के अभिलेख और डिजिटल प्रदर्शनियों के



निरीक्षण कर जल्द बैठक बुलाने का मिला आश्वासन

माध्यम से जनसामान्य को जानकारी दी जा सकेगी। विधान सभा परिसर के सौदर्यीकरण (लैंडस्केपिंग) परियोजना के

विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। बारे में बताया। इसका उद्देश्य विधानसभा को एक दर्शनीय और पर्यावरण-संवेदनशील स्थल में रूपांतरित करना है। उनकी यह पहल सौदर्यात्मक आकर्षण को पर्यावरणीय जागरूकता से जोडने का प्रयास है। अध्यक्ष के मृताबिक उप-राज्यपाल ने इस दृष्टिकोण में गहरी रुचि दिखाई है।

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. ८०२, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

आगरा शाखा: ऑफिस नंबर 504, 5वीं मंजिल, बिजनेस स्क्वायर, ब्लॉक-ई-15/8, संजय प्लेस, आगरा 282002 **मजफ्फरनगर शाखा** : पहली मंजिल, 52/9, बाग कंबावाला, निकट जैन मिलन जनसथ रोड, मजफ्फरनगर , पिन - 25 13 14, मोदीनगर शाखा: शॉप नंबर 16 दीवान बिलिंडग दूसरी मंजिल टीआरएम पब्लिक स्कूल के पास, एनएच-58 मोदीनगर गाजियाबाद-212004 (उत्तर प्रदेश)

मेरठ शाखा: प्रथम मंजिल, आर्यन स्क्वायर, पीवीएस मॉल के पास, योजना नंबर 3, आई. एस. 190, शास्त्री नगर, मेरठ - 250002 (उ.प्र.)

## आधिपत्य सूचना परिशिष्ट ४ (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपिठत धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं, प्रतिभृतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभूगतान करने में असफल रहे है , सिक्यूरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 01400002580 / आगरा शाखा) अली नजर (ऋणी) स्व. शना (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (सह-ऋणी), मोहम्मद नवाब एवं वाव्लू (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 431 पर स्थित संपत्ति प्लॉट नं. 43 एवं 44, रामकृष्ण कॉलोनी (संपत्ति क्षेत्रफल 143.07 वर्ग मीटर), मौज नागला, मालियान, कस्बा फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, आगरा, उत्तर प्रदेश, 283110 <b>चर्तु:सीमा</b> पूर्व: नीरज का खाली प्लॉट, पश्चिम: नीरज का प्लॉट, उत्तर: 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: ईश्वर चंद की संपत्ति।	08-04-2025 & ₹ 5,69,459/-	24-07-2025
2	(लोन कोड नं. 1141000520 / मुजफ्फरनगर शाखा) सनव्वर (ऋणी) खुर्शीदा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासी प्लॉट मोहल्ला खतौली ग्रामीण, (इस्लामाबाद भूड) परगना एवं तह. खतौली ग्रामीण, मुजफ्फरनगर उ.प्र. 251201 चर्तुसीमाएं: पूर्व - बाबू का मकान, पश्चिम - रास्ता 12 फीट, उत्तर - अली मोहम्मद का मकान, दक्षिण - रास्ता 8 फीट	12-04-2025 & ₹ 13,83,018/-	24-07-2025
3	(लोन कोड न. 08900000446 / मोदीनगर शाखा) राज कुमार उपाध्याय (ऋणी), प्रियंका उपाध्याय (सह-ऋणी) निशा (जमानतदार) संपति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लैट नं. एसएफ 03, दूसरी मंजिल, बिना छत के क्षेत्रफल 60.385 वर्ग मीटर, खसरा नं.953 एमआई, कृष्णा विहार कॉलोनी, पूजा अपार्टमेंट, ग्राम शाहपुर बन्हेटा, परगना डासना, तहसील और जिला, गाजियाबाद, उ.प्र201001 चर्तुसीमाएं:- पूर्व- अन्य संपत्ति, पश्चिम- फ्लैट नं. एसएफ 02, उत्तर - सामान्य क्षेत्र एवं फ्लैट नं. एसएफ- 04, दक्षिण - रास्ता 17.6 फीट चौड़ा		08-04-2025 & ₹ 10,21,815/-	24-07-2025
4	(लोन कोड नं. 00500001371 / मेरठ शाखा)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ईडब्ल्यूएस मकान नंबर एस.एफ15 (सेक्टर-बी) दूसरी मंजिल पर	14-04-2025 &	23-07-2025

**चर्तुसीमाए:-** पूर्वे- स्कूल, पश्चिम- मकान नबर एस.एफ.-16, उत्तर-मकान नंबर एस.एफ.-14, दक्षिण-रवि प्रकाश गुप्ता (जमानतदार) रास्ता ६ मीटर चौड़ा प्राधिकत अधिकारी स्थान : उत्तर प्रदेश आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 26.07.2025

# पूर्व मेयर पर अवैध कब्जे के आरोपों की जांच की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी) । दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने उत्तरी दिल्ली एमसीडी में भाजपा के पूर्व मेयर जयप्रकाश पर आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे और बहुमंजिल इमारत के अवैध निर्माण संबंधी गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कानुनी कार्रवाई की मांग की।

अंकुश नारंग ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व मेयर जयप्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने आश्रय सुधार बोर्ड की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल फ्लोर बनाए गए व बिजली के अवैध मीटर भी लगवाए गए। जब यह रिपोर्ट लोकायुक्त के पास गई तो उन्होंने उपराज्यपाल से तुरंत इस मामले की सक्षम एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की कि ये जमीन कैसे ट्रांसफर हुई और ये इमारत कैसे बनी। अंकुश नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि पूर्व मेयर पर लगे आरोपों की तुरंत निष्पक्ष जांच हो और आरोप साबित होने पर उनके खिलाफ सख्त कानुनी कार्रवाई हो।

# साहित्य अकादमी का अस्मिता कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली (एसएनबी)। साहित्य अकादमी की ओर से हिंदी की तीन प्रमुख कथाकार जयंती रंगनाथन, रेन् यादव एवं सविता पांडेय के साथ 'अस्मिता'

तीन कथाकारों ने अपनी-अपनी कहानी का पाठ किया

कार्यक्रम का आयोजन साहित्य अकादमी सभाकक्ष में किया गया। सुश्री सविता पांडेय ने अपनी कहानी 'ड्रीम गर्ल' प्रस्तुत

की जो एक नर्तकी के मनोभावों और बाजारीकरण की संस्कृति के द्वंद्व पर आधारित थी। रेन् यादव ने अपनी कहानी 'किवाड़' में पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री की स्थितियों को उद्घाटित किया, जबकि जयंती रंगानाथन ने अपनी कहानी 'काली टाई वाली औरत' का पाठ किया जो आधुनिक समय में मोबाइल के प्रयोग के एडिक्शन पर आधारित था, जिसे उन्होंने बहुत ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लेखक एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन अकादमी के उपसचिव डॉ. देवेंद्र कुमार देवेश द्वारा किया गया।

सम्मान कैपिटल लिमिटेड दिनांक : 21.07.2025 (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड वे नाम से जाना जाता था)

	(ओ)(शाखा का नाम)	धराहर संपात ।ववरण (अवल संपात)	दिनांक एवं राशि	की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 01400002580 / आगरा शाखा) अली नजर (ऋणी) स्व. शना (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (सह-ऋणी), मोहम्मद नवाब एवं वाव्लू (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 431 पर स्थित संपत्ति प्लॉट नं. 43 एवं 44, रामकृष्ण कॉलोनी (संपत्ति क्षेत्रफल 143.07 वर्ग मीटर), मौज नागला, मालियान, कस्बा फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, आगरा, उत्तर प्रदेश, 283110 <b>चर्तु:सीमा</b> पूर्व: नीरज का खाली प्लॉट, पश्चिम: नीरज का प्लॉट, उत्तर: 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: ईश्वर चंद की संपत्ति।	08-04-2025 & ₹ 5,69,459/-	24-07-2025
2	(लोन कोड नं. 11410000520 / मुजफ्फरनगर शाखा) सनव्वर (ऋणी) खुर्शीदा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासी प्लॉट मोहल्ला खतौली ग्रामीण, (इस्लामाबाद भूड) परगना एवं तह. खतौली ग्रामीण, मुजफ्फरनगर उ.प्र. 251201 चर्तुसीमाएं: पूर्व - बाबू का मकान, पश्चिम - रास्ता 12 फीट, उत्तर - अली मोहम्मद का मकान, दक्षिण - रास्ता 8 फीट	12-04-2025 & ₹ 13,83,018/-	24-07-2025
3	(लोन कोड न. 08900000446 / मोदीनगर शाखा) राज कुमार उपाध्याय (ऋणी), प्रियंका उपाध्याय (सह-ऋणी) निशा (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लैट नं. एसएफ ०३, दूसरी मंजिल, बिना छत के क्षेत्रफल ६०.३८५ वर्ग मीटर, खसरा नं.९५३ एमआई, कृष्णा विहार कॉलोनी, पूजा अपार्टमेंट, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील और जिला, गाजियाबाद, उ.प्र201001 चर्तुसीमाएं:- पूर्व- अन्य संपत्ति, पश्चिम- फ्लैट नं. एसएफ ०२, उत्तर - सामान्य क्षेत्र एवं फ्लैट नं. एसएफ- ०४, दक्षिण - रास्ता 17.6 फीट चौड़ा	08-04-2025 & ₹ 10,21,815/-	24-07-2025
4	(लोन कोड नं. 00500001371 / मेरठ शाखा) दुर्गेश रजनीश कुमार शर्मा (ऋणी) रजनीश कमार शर्मा	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ईडब्ल्यूएस मकान नंबर एस.एफ15 (सेक्टर-बी) दूसरी मंजिल पर (संपत्ति क्षेत्र 32.39 वर्ग मीटर) यानुना पुरम (आवासीय योजना नगर), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203001.	14-04-2025 & ₹ 6,25,702/-	23-07-2025

की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जायें। जाधि / विद्युत-101 वाराणसी



### JUBILANT FOODWORKS LIMITEI

CIN: L74899UP1995PLC043677

Regd. Office: Plot 1A, Sector 16A, Noida – 201301, Uttar Pradesh

Corporate Office: 15th Floor, Tower-E, Skymark One, Plot No. H-10/A, Sector -98, Noida- 201301, Uttar Pradesh.

Ph. No: +91-120-6927500; Email: <a href="mailto:investor@jublfood.com">investor@jublfood.com</a>; Website: <a href="www.jubllantfoodworks.com">www.jubllantfoodworks.com</a>

Sr. No:	Date	:	25/07/2025
Name:	Folio No./DP-CLID	:	
Address:	Shares	:	
Dear Shareholder,			

Sub: Transfer of unpaid/unclaimed dividend & underlying equity shares to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority.

Ref: Pursuant to Section 124(5)/(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules").

We draw your kind attention that as per our records, the amount of dividend(s) mentioned in the enclosed annexure titled "Request Letter cum Undertaking" are unpaid/unclaimed against your name. Please note that the unpaid/unclaimed dividend for FY 2017-18 along with underlying shares are due for transfer to IEPF. The unpaid/unclaimed dividend(s) for previous year(s) have already been transferred to the IEPF, as required under Section 124(5) of the said Act.

Pursuant to Section 124(5) of the Act, any money transferred to the Unpaid Dividend Account of Jubilant FoodWorks Limited ("Company"), which remains unpaid /unclaimed for a period of seven (7) years from the date of such transfer shall be transferred to the IEPF, a fund established by Central Government under Section 125 of the Act. Further, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Act read with the IEPF Rules, all shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for seven (7) consecutive years or more shall also be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF.

In the interest of shareholders, the Company through various modes (reminder letters/annual report) request shareholders to claim their unpaid/unclaimed dividend lying with the Company. The details of the unpaid/ unclaimed dividend lying with the Company are available on the website of the Company (weblink:https://www.jubilantfoodworks.com/investors/shareholder-information/dividend)

You are therefore requested to claim all unpaid/unclaimed dividend(s) on or before October 26, 2025 (cut-off date), by sending the below documents to MUFG Intime India Pvt Ltd (formerly Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company at Noble Heights, 1st Floor, NH-2 C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi–110058 or email at delhi@in.mpms.mufg.com:

### a) In case Shares are held in Demat/ Electronic Form:

- Original unclaimed dividend warrant(s)/demand draft(s)/bankers cheque(s), if applicable;
- Request letter cum undertaking (duly filled and signed as per format attached)
- Latest client master list duly updated with current Bank details. Payment will be made to the bank account registered against the said demat account.
- PAN Card duly self-attested along with Original cancelled cheque leaf with pre-printed name of the First holder. (if name is not pre-printed on the cheque leaf, a copy of bank statement / passbook duly attested by Bank.)

### b) In case Shares are held in Physical Form:

- Original unclaimed dividend warrant(s)/demand draft(s)/bankers cheque(s), if applicable
- Request letter cum undertaking (duly filled and signed as per format attached)
- Investor Request Form ISR-1, Form ISR-2, Form ISR-3 or SH-13 (duly filled and signed as per format available on Company's website <a href="https://www.jubilantfoodworks.com">www.jubilantfoodworks.com</a> and RTA website <a href="https://www.in.mpms.mufg.com">www.in.mpms.mufg.com</a>)

SEBI vide Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 June 23, 2025 mandated the shareholders holding shares in physical form to furnish PAN Card, KYC details, Bank account details, Choice of Nomination and specimen signature for their corresponding folio to the Company/RTA. Further, any dividend payments in respect of such folios which do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, will be made through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon furnishing of all the aforesaid details. In absence of these details, the payment of dividend amount cannot be processed.

In case the dividend(s) are not claimed by the cut-off date, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the unpaid dividend along with the underlying equity shares held by you which are due for transfer to IEPF in accordance with the notification(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the Equity shares so transferred to IEPF.

Please note that both the unpaid/unclaimed dividend and underlying shares including all benefits accruing on such equity shares, if any, once transferred to IEPF can be claimed back only from IEPF Authority by submitting an online application in prescribed Form IEPF-5 available on the website i.e. <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a> after following the procedure prescribed therein.

Should you have any query, please feel free to contact the Company/RTA, as per contact details given below:

## JUBILANT FOODWORKS LIMITED

Secretarial Department

 $16^{th}$  Floor, Tower-E, Skymark One, Plot No. H-10/A, Sector -98,

Noida- 201301, Uttar Pradesh Telephone: +91-120-6927500 Email: investor@jublfood.com

# MUFG INTIME INDIA PVT LTD (FORMERLY LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED)

Noble Heights, 1<sup>st</sup> Floor, NH-2, C-1 Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi – 110 058 Telephone: +91 11 49411000 E-mail: delhi@in.mpms.mufg.com

Thanking you, Yours faithfully,

For Jubilant FoodWorks Limited

Sd/-

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

### **Request letter cum Undertaking**

Date:

To,

MUFG Intime India Pvt Ltd (Formerly Link Intime India Private Limited

Unit - Jubilant FoodWorks Limited ("the Company")

ISIN- INE797F010120

Noble Heights, 1st Floor, NH-2, C-1 Block, LSC

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi - 110 058

Dear Sir/Madam,

**Sub**: Payment of unpaid/ unclaimed dividend **Ref**: FOLIO/DPID/CLIENT ID: .....

To be submitted on or before October 26, 2025

This has reference to your letter Dated July 25,2025. I/We, hereby request you to release all my/our unpaid/unclaimed dividends lying with the Company as mentioned below in respect of equity shares held by me/us in above mentioned Folio/DP ID/Client ID.

FY	Type of Dividend	Warrant No.	Amount (Rs)
2017-2018	Final Dividend	8	50.00
2018-2019	Final Dividend	7	100.00
2019-2020	Interim Dividend	12	120.00
2020-2021	Final Dividend	6	120.00
2021-2022	Final Dividend	10	120.00
2022-2023	Final Dividend	6	60.00
2023-2024	Final Dividend	62	48.00

In consideration of your transferring the amount directly in my given Bank Account in lieu of Dividend Warrant(s)/Demand Draft(s) lying unpaid/unclaimed in my/our name(s) and which are irretrievable /lost or misplaced or crediting the amounts directly to my Bank Account, I/We hereby agree and undertake to hold the Company, its Directors and Officers harmless and to keep them protected from /against all losses, costs or damages which you may sustain or incur by reason of the Company issuing Demand Draft(s) or by the original Dividend Warrant(s) being, at any time, found and presented for payment by any person or persons claiming to be the holder(s) of the Dividend Warrant(s) or in any way interested therein.

I/We further agree and undertake to return to you the original Dividend Warrants / Demand Draft(s), should it be found by me/us or again come into my/our possession at any time hereafter.

I/We am/are enclosing the following (tick v whichever is applicable)  For Shares held in demat form:				
<ul> <li>Original dividend warrant(s)/demand draft(s)/banker cheque(s)</li> <li>Copy of latest client master list with updated Bank details. Payment will be made to the bank account registered against the said demat account.</li> <li>Self-attested copy of PAN Card along with Original cancelled cheque leaf with pre-printed name of the First holder. (if name is not pre-printed on the cheque leaf, a copy of bank statement / passbook duly attested by Bank.)</li> </ul>				
For Shares held in physical form:				
<ul> <li>Original dividend warrant(s)/demand draft(s)/ banker cheque(s)</li> <li>Self-attested copy of PAN Card along with Original cancelled cheque leaf with pre-printed name of the First holder. (if name in not pre-printed on the cheque leaf, a copy of bank statement / passbook duly attested by Bank.)</li> <li>Investor Request Form ISR-1, Form ISR-2, Form ISR-3 or SH-13 (duly filled and signed along with supporting documents)</li> </ul>				
Email Id:	Mobile No.			
Name:				
Place:	Signature of first shareholder			

**Note:** Please ensure that, the Complete bank details are updated in your demat account, with IFSC code for processing your request.